

संख्या— E-43626 / 2023

प्रेषक,

विमला धपवाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग-01

देहरादून, दिनांक मार्च, 2024

विषय:- SASCI योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत प्रस्तावों को प्राप्त किये जाने संबंधी निर्गत गाइडलाईन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-194902, दिनांक-01 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.02.2024 द्वारा SASCI योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत प्रस्तावों को प्राप्त किये जाने संबंधी निर्गत गाइडलाईन के अनुसार वर्तमान में भाग-I(अनाबद्ध) के अंतर्गत राज्य हेतु प्रावधानित रू0 615.00 करोड़ तथा भाग-II एवं III के विवरण के संबंध में अवगत कराते हुये, भारत सरकार की गाइडलाईन का भलीभांति अध्ययन करते हुये, पूंजीगत परियोजनाओं के प्रस्ताव <https://pmgatishakti.uk.gov.in> पोर्टल के माध्यम से अपलोड/प्रस्तावित करने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः उक्त वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.02.24 द्वारा SASCI योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विषयगत गाइडलाईन का अध्ययन करते हुये, विभागांतर्गत पूंजीगत परियोजनाओं के प्रस्ताव <https://pmgatishakti.uk.gov.in> पोर्टल के माध्यम से अपलोड/प्रस्तावित करने हेतु यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विमला धपवाल)

अनु सचिव